



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 8, 2010/पौष 18, 1931

No. 29]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8, 2010/PAUSA 18, 1931

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2010

का.आ. 36(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2420(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2009 द्वारा, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा राजस्थान राज्य में लंगतला-रामगढ़ पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 1-10-2009 से 14-12-2009 तक उपलब्ध करा दी गई थीं;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर लिया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित हैं, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः, अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे नं.	आर.ओ.यू. हेतु अवाप्त योग्य रकबा (हेक्टेर्स में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जैसलमेर	जैसलमेर	लंगतला	475	0.1920
	(रेवेन्यू)		462	1.0260
			469	1.0220
			474	1.0220

(1)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जैसलमेर	जैसलमेर	लंगतला	481	1.0220
	(रेवेन्यू)-जारी		486	1.0220
			493	1.0220
			498	1.0220
			505	1.0220
			510	1.0220
			517	1.0220
			522	1.0220
	कुल	12	11.4380	
	पिराड	27	1.0220	
		34	1.0220	
		39	1.0220	
		46	1.0220	
		103	1.0220	
		102	1.0230	
		101	0.9220	
		107	0.1570	
		108	1.0790	
		87	1.0790	
		80	0.8300	
		83	0.2490	
		82	0.6390	
	कुल	13	11.0880	
	हंकाड़ा	27	0.0870	
	कुल	27	0.0870	
	शाहगढ़	57	0.3610	
		58	0.0260	
		59	1.0420	
		60	0.0090	
		62	1.0520	
		63	0.9550	
		188	1.0520	
		189	1.0490	
		187	0.8750	
		186	0.1770	
		183	1.0520	
		180	1.0520	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जैसलमेर	जैसलमेर	शाहगढ़	878	0.1380
	(रेवेन्यू)-जारी		883	1.1410
			884	1.0340
			885	0.0450
			924	0.0030
			923	1.1130
			886	0.2500
		रोड		0.0760
		914		0.7690
		913		0.4020
		907		1.0370
		902		0.7280
		903		0.6440
		1121		1.0930
		1119		0.4530
		1108		1.1300
		1128		0.0100
		1127		0.2820
		1125		0.8790
		1124		0.3640
	कुल	72		45.5460
जैसलमेर	18 ए.टी.डी.	39		0.6240
(कॉलोनाइजेशन)		46		0.5600
	कुल	2		1.1840
	17 ए.टी.डी.	4		0.6210
		12		0.1020
		19		0.3230
		26		0.5440
	कुल	4		1.5900
रामगढ़	14 आर.एम.एम.	59		0.5240
(कॉलोनाइजेशन)		3		0.5240
	कुल	2		1.0480
	7 एस.एल.एम.	54		0.5240
	कुल	1		0.5240
	8 एस.एल.एम.	5		0.0080
	कुल	1		0.0080

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1 डी.एम.ओ.	64		0.1540
		8		0.5670
		16		0.2430
		15		0.3250
	कुल	4		1.2890
	7 डी.एम.एन.	30		0.5050
	कुल	1		0.5050
	6 डी.एम.एन.	37		0.1170
		45		0.5680
		53		0.2700
		52		0.2970
		60		0.5680
	कुल	5		1.8200
	रामगढ़	3842		0.0950
		3843		0.5500
		3844		0.1030
		4478		0.0900
		4431		0.0950
		4427		0.2030
	कुल	6		1.1360

[फा. सं. एल-14014/36/09-जी.पी.]

के. के. शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2010

S.O. 36(E).—Whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. 2420(E) dated 22nd September, 2009 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Govt. of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Langtala-Ramgarh pipeline project for the transportation of natural gas in the State of Rajasthan by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notifications were made available to the public from 01-10-2009 to 14-12-2009;

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Govt. of India;

And whereas Govt. of India after considering the said report, and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, Govt. of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Govt. of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipelines shall, instead of vesting in the Govt. of India, vest, on the date of the publication of the declaration, in GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village	Survey No.	Land to be Acquired for R.O.U in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jaisalmer	Jaisalmer (Revenue)	Langtala	475	0.1920
			462	1.0260
			469	1.0220
			474	1.0220
			481	1.0220
			486	1.0220
			493	1.0220
			498	1.0220
			505	1.0220
			510	1.0220
			517	1.0220
			522	1.0220
			Total	12
				11.4380
			Pirau	27
				1.0220
			34	1.0220
			39	1.0220
			46	1.0220
			103	1.0220
			102	1.0230

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jaisalmer	Jaisalmer	Pirau	101	0.9220
	(Revenue)—contd.		107	0.1570
			108	1.0790
			87	1.0790
			80	0.8300
			83	0.2490
			82	0.6390
Total			13	11.0880
Hankada			27	0.0870
Total			27	0.0870
Shahgarh			57	0.3610
			58	0.0260
			59	1.0420
			60	0.0090
			62	1.0520
			63	0.9550
			188	1.0520
			189	1.0490
			187	0.8750
			186	0.1770
			183	1.0520
			180	1.0520
			177	0.7940
			196	0.0260
			207	0.2570
			208	0.1100
			210	1.0530
			168	1.1280
			167	0.1560
			163	0.4640
			164	0.5700
			162	1.0190
			346	1.1050
			359	0.0440
			360	1.2160
			361	0.9710
			342	0.5500
			343	0.7300
			345	0.0030
			365	0.3500

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jaisalmer	Jaisalmer	Shahgarh	366	1.3310	Jaisalmer	18ATD		39	0.6240
	(Revenue) contd.		386	1.1600	(Collonisation)			46	0.5600
			384	0.0050		Total		2	1.1840
			409	0.4330		17 ATD		4	0.6210
			410	1.0140				12	0.1020
			695	0.6850				19	0.3230
			697	0.0560				26	0.5440
			698	0.3480		Total		4	1.5900
			672	1.0140	Ramgarh	14 RMM		59	0.5240
			671	0.0410	(Collonisation)			3	0.5240
			660	1.1640		Total		2	1.0480
			687	0.1150		7 SLM		54	0.5240
			658	1.2870		Total		1	0.5240
			657	0.1710		8 SLM		5	0.0080
			649	1.1210		Total		1	0.0080
			648	0.1580		1DMO		64	0.1540
			647	1.4000				8	0.5670
			686	0.5180				16	0.2430
			641	0.5010				15	0.3250
			644	1.0360		Total		4	1.2890
			879	1.1490		7 DMN		30	0.5050
			878	0.1380		Total		1	0.5050
			883	1.1410		6 DMN		37	0.1170
			884	1.0340				45	0.5680
			885	0.0450				53	0.2700
			924	0.0030				52	0.2970
			923	1.1130				60	0.5680
			886	0.2500		Total		5	1.8200
	Road			0.0760	Ramgarh			3842	0.0950
	914			0.7690				3843	0.5500
	913			0.4020				3844	0.1030
	907			1.0370				4478	0.0900
	902			0.7280				4431	0.0950
	903			0.6440				4427	0.2030
	1121			1.0930		Total		6	1.1360
	1119			0.4530					
	1108			1.1300					
	1128			0.0100					
	1127			0.2820					
	1125			0.8790					
	1124			0.3640					
Total	72		45.5460						

[F. No. L-14014/36/09-G.P.]
K. K. SHARMA, Under Secy.